

## जनपद बाराबंकी

दिनांक- 05.07.2021

थाना सुबेहा पुलिस द्वारा 04 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के जेवरात व चोरी करने के उपकरण बरामद-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा जनपद में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ श्री नवीन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष सुबेहा के नेतृत्व में थाना सुबेहा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 05.07.2021 को 04 शातिर अभियुक्तगण 1. शाहरुख पुत्र मोबीन 2. हसीन पुत्र मुजीम निवासीगण लोदीपुर मजरे मरुई थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी 3. आशीष वर्मा उर्फ सुल्तान पुत्र कुंवर बृजेश वर्मा 4. अजय कुमार पुत्र राजकुमार निवासीगण भिखारीपुर थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी को चौबीसी जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के जेवरात (दो अदद पायल सफेद धातु, चार अदद अंगूठी सफेद धातु व एक अदद अंगूठी पीली धातु), चोरी करने के उपकरण (एक अदद पिलास, पेचकस व टार्च), एक अदद मोटर साइकिल यूपी 32 एफटी 8055 व 2500/- रुपये नकद बरामद किया गया । बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में विभिन्न स्थानों पर की गई चोरी की घटनाएं स्वीकार की गयी हैं। जिनका विवरण निम्नवत् है-

- 1- दिनांक 13.02.2021 को वादी तैय्यब अहमद पुत्र श्री चौधरी मो0 अहमद निवासी थलवारा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सुबेहा पर सूचना दी गयी कि दिनांक 12/13.02.2021 की रात्रि मेरे घर में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा खिड़की तोड़कर चोरी कर लिया गया । इस सम्बन्ध में थाना सुबेहा पर मु0अ0सं0-27/2021 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
- 2- दिनांक 04.07.2021 की वादी मुजीब पुत्र मो0 शरीफ निवासी लोदीपुर मजरे मरुई थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सुबेहा पर सूचना दी गयी कि दिनांक 03.07.2021 की रात्रि मेरे घर में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा कमरे का ताला तोड़कर चोरी कर लिया गया । इस सम्बन्ध में थाना सुबेहा पर मु0अ0सं0- 130/2021 धारा 457/380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग एक साथ मिलकर चोरी की घटनाएं कारित करते हैं और जो पैसा व सामान मिलता है उसको बेचकर अपना खर्च चलाते हैं।

### नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. शाहरुख पुत्र मोबीन निवासी लोदीपुर मजरे मरुई थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।
2. हसीन पुत्र मुजीम निवासी लोदीपुर मजरे मरुई थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।
3. आशीष वर्मा उर्फ सुल्तान पुत्र कुंवर बृजेश वर्मा निवासी भिखारीपुर थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।
4. अजय कुमार पुत्र राजकुमार निवासी भिखारीपुर थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

### **बरामदगी-**

1. दो अदद पायल सफेद धातु
2. चार अदद अंगूठी सफेद धातु
3. एक अदद अंगूठी पीली धातु
4. एक अदद पिलास, पेचकस व टार्च
5. एक अदद मोटर साइकिल यूपी 32 एफटी 8055
6. 2500/- रूपये नकद

### **पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष सुबेहा श्री संतोष कुमार जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० श्री रामजी सिंह थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।
3. उ०नि० श्री प्रमेन्द्र प्रताप सिंह थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।
4. हे०का० शिवकुमार तिवारी थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।
6. का० मो० हारुन, का० अंकित बाबू थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।